



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015-श्रावण 2, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### MADHYA PRADESH FINANCIAL CORPORATION, INDORE

In exercise of the powers conferred by Section 48 (3) of the state Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951) the Board of Directors of the Madhya Pradesh Financial Corporation, after consultation with small Industrial Development Bank of India (SIDBI) and with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Financial Corporation (Staff) Regulations, 1958.

Regulation No. 19 (a) of the said regulations, as amended, will be effective from 21-5-2015 and will now be read as under :-

#### 19. Superannuation and Retirement :

(a) The date of compulsory retirement of an employee of the Corporation of Class 'A' & 'B' shall be the last day of the month in which he/she attains the age of 60 years;

Provided that in case of an employee whose date of birth is first of any month would be retired, on attaining the age of 60 years, in the afternoon of the last day of the preceding month.

By Order of Board of the Directors

**K. C. GUPTA,**

Managing Director.

(220-B.)

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रांजल भारद्वाज है मुझे घर पर प्रांजल शर्मा भी पुकारते हैं. मेरा नाम माइनर में प्रांजल शर्मा था. मेरा ही नाम प्रांजल शर्मा व प्रांजल भारद्वाज है जो दोनों नाम मेरे ही हैं. प्रांजल भारद्वाज व प्रांजल शर्मा एक ही व्यक्ति है. अब मेरा नाम प्रांजल भारद्वाज ही अंकित किया जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( प्रांजल शर्मा )

नया नाम :

( प्रांजल भारद्वाज )

माइक्रोबेव टावर के पास,

एम. एस. रोड, मुरैना (मं.प्र.).

(212-बी.)

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आशु झाम पत्नि श्री नितिन झाम, निवासी-4, गीता कॉलोनी, चॉडक हॉस्पिटल के सामने लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मुझे प्रार्थिनी का विवाह के पूर्व नाम कु. आशु सचदेवा पुत्री श्री जवाहर सचदेवा था विवाह के उपरांत मैंने अपना नाम कु. आशु सचदेवा के स्थान पर श्रीमती आशु झाम रख लिया है.

अतः मुझे भविष्य में भी श्रीमती आशु झाम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( कु. आशु सचदेवा )

(213-बी.)

नया नाम :

( आशु झाम )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पहले कु. दीपू कुशवाहा पिता श्री बुद्दालाल कुशवाहा था. अब शादी के बाद श्रीमती दीपू कुशवाहा पति श्री मुकेश कुशवाहा हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( कु. दीपू कुशवाहा )

पुत्री श्री बुद्दालाल कुशवाहा

(214-बी.)

नया नाम :

( दीपू कुशवाहा )

पत्नी श्री मुकेश कुशवाहा,

निवासी-निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, do here by declare that before my marriage my name was Ku. Achamma Mathew after my marriage I have changed my name as Mrs. ACHAMMA GEORGE W/o Mr. Sam. T. George, Address :- A-3/4, Amrit Deep Apartment, Punjabi Bagh, Govindpura, Bhopal (M.P.).

Old Name :

( ACHAMMA MATHEW )

(215-B.)

New Name :

(ACHAMMA GEORGE)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम SUNIL KUMAR MISHRA था जो कि बदलकर SUNIL MISHRA हो गया है. भविष्य में मुझे मेरे नये नाम SUNIL MISHRA से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( सुनील कुमार मिश्रा )

( SUNIL KUMAR MISHRA )

(219-बी.)

नया नाम :

( सुनील मिश्रा )

( SUNIL MISHRA )

R-604, महालक्ष्मी नगर,

इंदौर-452010 ( मध्यप्रदेश ).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश चंद्र झा पिता स्व. श्री मिश्रीलाल झा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 707/ए, महाराजपुर, ग्राम महाराजपुर, तह. पनागर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश स्वयं का उपनाम "झा" से परिवर्तित कर "मिश्रा" कर रहा हूँ. अतः आज दिनांक 24-06-2015 से मुझे मेरे परिवर्तित नाम "राकेश चंद्र मिश्रा" के नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम :

( राकेश चंद्र झा )

(224-बी.)

नया नाम :

( राकेश चंद्र मिश्रा )

### आम सूचना

मेरे पक्षकार अपूर्व जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन, निवासी सदर बाजार, गुना के जानकारी के आधार पर सूचित किया जाता है कि बचपन में माता-पिता ने मेरे पक्षकार का नाम अर्पित जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन रख दिया था। यह नाम मेरे पक्षकार को अच्छा नहीं लगा था। मेरे पक्षकार ने अपना नाम अपूर्व जैन रख लिया था। यह नाम मेरे पक्षकार को अच्छा लगा था इस कारण प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर आज तक मेरे पक्षकार का नाम अपूर्व जैन पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी सदर बाजार लिखा आ रहा है। मेरे पक्षकार की शिक्षा जीवन की कक्षा 5, 8, 10, 12 एवं बी. टेक की समस्त अंकसूची में और स्कूल, कॉलेज में अपूर्व जैन के नाम से अंकित है। अतः पक्षकार वर्तमान में एवं भविष्य में अपूर्व जैन के नाम से जाना जावेगा। मेरे पक्षकार का ड्रायविंग लायसेन्स, पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड तथा पासपोर्ट में भी अपूर्व जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन अंकित है।

मेरे पक्षकार की नाबालिग की स्थिति में पिताजी ने मेरे पक्षकार का नाम अर्पित लिखवाकर दिनांक 03-11-1998 को एक कच्चा भवन तल्लैया मोहल्ला, बसोर गली, निवासी गुना क्रय कर लिया था। उस क्रय-पत्र में भी मेरे पक्षकार का नाम अर्पित जैन उर्फ अपूर्व जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन पढ़ा जावे। इस सम्पत्ति पर मेरे पक्षकार का पिताजी के साथ समान अधिपत्य व स्वामित्व है। किसी भी प्रकार का विवाद कभी उत्पन्न न हो इसलिये यह आम सूचना प्रकाशित की गई है।

प्रकाशचंद जैन,  
(एडवोकेट)

ऑफिस—अनुराधा गली, गुना.

(223-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स वैकुण्ठधाम कोलोनाईजर एण्ड डेवलपर्स जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0467/15, दिनांक 21-01-2015 के साझेदार श्री संजय सक्सेना एवं श्री नरेन्द्र कुमार साहू के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वैकुण्ठधाम कोलोनाईजर एण्ड डेवलपर्स में भागीदार क्र. (1) संजय सक्सेना, (2) नरेन्द्र कुमार साहू हैं। जिसमें कि दिनांक 17-04-2015 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया जिसमें श्री संदीप सक्सेना पुत्र श्री डॉ. जी. के. सक्सेना, निवासी 339, रचना नगर, भोपाल (म. प्र.) के भागीदार के रूप में सम्मिलित/शामिल किया है। उक्त साझेदार भागीदार क्र. 03 कहलायेगा। उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे।

द्वारा

एन. के. साहू,  
(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड कॉम्प्लेक्स,

मोती मस्जिद के सामने, भोपाल (म. प्र.).

(216-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकारगण के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकारगण की फर्म मैं. फरदीन फेब्रीकेटर्स, भूखण्ड क्र. 7-डी/1, सेक्टर-एच, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल भूखण्ड का क्षेत्रफल 14000 वर्गफीट जिसका पार्टनरशिप पंजीयन क्र. 01/01/01/00230/14 है। उक्त फर्म में दो पार्टनर जलील खान वल्द रखमान खान 50 प्रतिशत एवं सददाम खान वल्द रखमान खान 50 प्रतिशत के पार्टनर रहे हैं। ऐसा कि एक पार्टनर जलील खान की दिनांक 02-03-15 को मृत्यु हो जाने के कारण जलील खान के वारिस फरदीन खान वल्द स्व. जलील खान, उम्र 12 साल, फरहान खान वल्द स्व. जलील खान उम्र 09 साल एवं रेहान खान वल्द स्व. जलील खान उम्र 07 साल (तीनों के प्राकृतिक संरक्षक रखमान खान) सभी निवासीगण म. नं. 15, मुकददस नगर, पुल बोगदा, भोपाल को उक्त फर्म में पार्टनर के रूप में जोड़ा गया है जिसकी पार्टनरशिप डीड दिनांकित 02-07-15 है जिसके पार्टनर सददाम खान 50 परसेन्ट एवं फरदीन खान 16.68 परसेन्ट, फरहान खान 16.66 परसेन्ट, रेहान खान 16.66 परसेन्ट उक्त फर्म में पार्टनर हो गये हैं। अब उक्त फर्म में उपरोक्त तीनों पार्टनर के नाम अंकित किये जाने हेतु फर्म एवं संस्थाएं भोपाल, मध्यप्रदेश में आवेदित कर नाम जोड़ा जा रहा है यदि उपरोक्त वर्णित फर्म में उक्त तीनों नये पार्टनर बनाये जाने/जोड़ने में या उनके नाम पर या उसके किसी भाग या हिस्से से किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी या अन्य का कोई हित, स्वत्व सम्बन्ध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में या कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकारगण पर एवं फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकारगण उपरोक्त फर्म में सददाम खान के साथ तीनों नये पार्टनर के नाम जोड़ने/पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अन्तर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना और आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

नरेश पाटीदार  
(एडवोकेट)

पाटीदार लॉ चेंम्बर,

2-ए, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल (म. प्र.).

(217-बी.)

**NOTICE****NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

This is to notify that Shri Vinit Sureshkumar Tayal retired from the partnership firm M/s. Minakshi Cotex, Warla Road, Sendhwa Distt. Barwani (MP.) w.e.f. 01.04.2005 and Shri Shankarlal Gopilal Tayal have been admitted as a partner in the said partnership firm w.e.f. 01.04.2005.

The constitution of the firm's stand's altered accordingly.

For-M/s. Minakshi Cotex  
**(PAWAN KUMAR TAYAL),**  
(Partner)

(218-B.)

**NOTICE****NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

This is to notify that Shri Narendra Kumar Shankarlal Tayal and shankarlal Gopilal Tayal retired from the partnership firm M/s. Minakshi Cotex, Warla Road, Sendhwa Distt. Barwani (MP.) w.e.f. 01.09.2010 and Shri ShreyashKumar Tayal have been admitted as a partner in the said partnership firm w.e.f. 01.09.2010.

The constitution of the firm's stand's altered accordingly.

For-M/s. Minakshi Cotex  
**(PAWAN KUMAR TAYAL),**  
(Partner)

(218-A-B.)

**NOTICE****NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information SMT. BHAWANA KANKARIA w/o SHRI ATUL KANKARIA, R/o 604, Sneh Nagar, Indore, Teh. And Dist. Indore, (M.P.), PIN: 452001 has retired on 10.11.2014 from the firm " M/s SAMANVYA BUILDCON " 101,Center Point, Sapna Sangeeta Road,Indore,Teh. & Dist. Indore (M.P.),PIN: 452001 AND SHRI HUKUMCHAND SINGHAL S/O SHRI TULSIRAM SINGHAL R/o, 244-245, Hukumchand Colony, Indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.), PIN:452001, SHRI NARESH SINGHAL S/o SHRI HUKUMCHAND SINGHAL R/O, 24/2, Teli Bakhal, Indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.), Pin:452001, SMT.RAKHI SINGHAL W/O SHRI RAJESH SINGHAL R/o 24, Teli Bakhal, Malharganj, Indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.) Pin:452001 and SMT.POOJA SINGHAL W/o ANOOP SINGHAL, R/O 24, Teli Bakhal, Malharganj, Indore, Teh. & Dist. Indore ( M.P.) Pin:452001 have joined as a new partners on 10.11.2014 in the firm "M/s SAMANVYA BUILDCON", 101,Center Point,Sapna Sangeeta Road,Indore,Teh. & Dist. Indore (M.P.), PIN: 452001.

For-M/s SAMANVYA BUILDCON,  
**( ATUL KANKARIA )**  
(Partner)  
Indore.

(222-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. जय माँ पीताम्बरा स्टोन क्रेशर, सटई, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर भागीदारी फर्म से भागीदार श्री पवन द्विवेदी आत्मज श्री हरिशंकर द्विवेदी, निवासी खडेहा, तहसील चंदला, जिला छतरपुर (म. प्र.) दिनांक 31-03-2014 से स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं. अतः इस साझेदारी फर्म में दिनांक 01-04-2014 से 1. श्री रमेश पाठक आत्मज श्री मुन्नालाल पाठक, 2. श्रीमती रमा पाठक आत्मजा श्री रामसेवक बिंदुआ एवं 3. श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासीगण सटई, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) भागीदार शेष रह गए हैं व इस फर्म के साझेदार रहेंगे.

**प्रेषक**  
मै. जय माँ पीताम्बरा स्टोन क्रेशर,  
**रमेश पाठक**  
(भागीदार)  
सटई, जिला छतरपुर (म. प्र.).

(221-बी.)

**PUBLIC NOTICE**

M/s **MODI WAREHOUSES** a partnership firm registered with the Registrar of Firms vide a registered partnership deed with S.No:02/44/01/00166/14.

The general public is hereby informed that M/s. MODI WAREHOUSES is a partnership firm which was reconstituted on 26<sup>th</sup> May 2015 due to retirement of the partner Mr. Prashant Agarwal by virtue of deed of retirement executed amongst themselves on 26<sup>th</sup> May 2015. The retiring partner unanimously agreed to leave the above mentioned firm property in favor of my clients, the continuing partners viz. 1. Mrs. Hemlata Modi to hold the same absolutely forever together with the all rights, title, lien, easements, advantages and appurtenances etc., without any further claim and interference from them or by any person or persons under them for the corresponding eligible consideration received them. By this notice my clients 1. Mrs. Neetu Modi, 2. Mrs. Hemlata Modi, 3. Mrs. Neeta Garg, 4. Mrs. Suman Agarwal informs the public in general that, they are the only partners of M/s Modi Warehouses, and who are having any transactions with above said firm now and in further they should contact them.

**CA NAMAN MODI,**  
Chartered Accountant  
Morena.

(225-B.)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, सिवनी-मालवा**

सिवनी-मालवा, दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्र. क्र. 02-बी/113(1)वर्ष 2013-14.

**प्रारूप-चार**

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि श्री भीलटदेव मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट (न्यास), ग्राम भमेडीदेव (भीलटदेव) भूमि खसरा नं. 43 रकबा 1.384 हैक्टेयर शासकीय गोठान कॉलम नं. 12 भीलटदेव मठ स्थित है, जिसके सर्वराहकार महन्त गोविन्ददास पिता दरवेश्वर गवली यादव, निवासी ग्राम भमेडीदेव, तहसील सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. कि एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यास में दिनांक 29 जुलाई, 2015 को विचार किया जावेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो या कोई आपत्ति व सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के पन्द्रह दिवस के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष पेशी दिनांक 29 जुलाई, 2015 को उपस्थित हो सकता है समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 15 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(399)

**प्रकाश सिंह चौहान,**  
अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास मुंगावली, जिला अशोकनगर**

प्र. क्र. बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1951 की धारा-5(2) एवं 5(1) के अंतर्गत]

इस न्यायालय में मंदिर श्री राधा कृष्ण बिहारी जी ग्राम बर्रा का प्रकरण मध्यप्रदेश लोक न्यास एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत मंदिर श्री राधा कृष्ण बिहारी जी ग्राम बर्रा, तहसील मुंगावली में उसकी चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन हेतु चल रहा है. जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 09 जून, 2015 को विचार किया जावेगा.

इस धार्मिक स्थान की चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के बावत् किसी भी प्रकार का संबंध रखता हो तो वह कोई भी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखितरूप में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है. तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची क्रमांक-1

मंदिर की प्रबंधन कार्यकारिणी ( न्यासीगण ) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों के पते सहित सूची

- |   |                     |
|---|---------------------|
| (1) दसोदा बाई पत्नि प्रभूदयाल शिवहरे, निवासी ग्राम बर्वा, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर- | अध्यक्ष             |
| (2) प्रभूदयाल पुत्री बट्टी शिवहरे   | - सचिव (प्रबंधक)    |
| (3) हरनारायण पुत्र घासीराम लोधी   | - सदस्य             |
| (4) आकाश पुत्र नर्मदाप्रसाद शिवहरे  | - सदस्य             |
| (5) जुगलकिशोर पुत्र हरलाल शिवहरे  | - सदस्य             |
| (6) उधमसिंह पुत्र प्रभूलाल लोधी   | - सदस्य             |
| (7) जगदीश पुत्र परसराम शिवहरे   | - सदस्य             |
| (8) रामा पुत्र बालमुकुन्द प्रजापति  | - सदस्य             |
| (9) हरनारायण पुत्र कालूराम शिवहरे   | - सदस्य             |
| (10) कालूराम पुत्र हरिराम लोधी  | - सदस्य             |
| (11) राजेश पुत्र शिवनारायण शिहारे   | - सदस्य             |
| (12) तहसीलदार महोदय   | - शासकीय प्रतिनिधि. |

चल व अचल सम्पत्ति का विवरण मंदिर श्री राधा कृष्ण बिहारी ग्राम बर्वा, जिसका पंजीयन किया जाना है निम्नानुसार है:-

क्रमांक	नाम सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की 29 इंच संगमरमर की बड़ी एक	40,000
2.	मूर्ति राधा जी की 29 इंच संगमरमर की बड़ी एक	40,000
3.	मूर्ति शंकर जी की संगमरमर	5000
4.	मूर्ति पार्वती जी की संगमरमर	5000
5.	मूर्ति श्री नंदी महाराज की	5000
6.	मूर्ति श्री गणेश कार्तिक जी की संगमरमर	5000
7.	मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी की (पीतल)	4000
8.	मूर्ति राधा जी की (पीतल)	4000
9.	मूर्ति श्री लड्डू गोपाल जी की (पीतल)	2000

#### अन्य सामग्री

क्रमांक	नाम सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	2.	3.
1.	गरूण जी घंटी (पीतल) एक	500
2.	बांसुरी (पीतल) तीन	15,000
3.	झालर पीतल दो	1000
4.	विजय घंटा पीतल	1000

1.	2.	3.
5.	आरती पीतल	200
6.	चांदी की सिक्का एक, गंगा सागर तांबे का एक, लोटा अष्ट धातु का	1200
7.	प्लेट तांबे की, आंचमनी तांबे की, थाली तांबे की एक	500
8.	थाली स्टील की	300
9.	लालटेन लोहे की, गैस बत्ती लोहे की दो	1300
10.	गुंड बडी स्टील की एक	700
11.	गुंड छोटी पीतल की एक	1000
12.	बर्नी स्टील की तीन	500
13.	डिब्बा एल्यूमीनियम सात	1500
14.	गैस चूल्हा सिलेंडर सहित	5000
15.	गगरी स्टील की	300
16.	परात पीतल की	500
17.	थाली अष्ट धातु	500
18.	थाली चार खन वाली स्टील की चार	400
19.	परात स्टील की	300
20.	तसला स्टील का सात	700
21.	कढाही लोहे की तीन	1000
22.	लोटा पीतल के दो, पंखा टेबिल फेन लोहे के दो, टंकी लोहे की दो ड्रम प्लास्टिक का छः.	6300
23.	बक्सा पेटी लोहे की तीन, सूटकेश, कुकर एल्यूमीनियम, सब्बल लोहे के चार.	5500
24.	गेंती फडुआ लोहे के तीन, तराजू बांट लोहे के दो, भगोना एल्यूमीनियम	1500
25.	नशेनी लोहे की, खल्लर लोहे का, खल्लर स्टील का	1400
26.	श्री रामायण जी, श्री भागवत जी, श्री गीता जी एवं अन्य ग्रंथ	2800

अचल सम्पत्ति :- मंदिर पक्का एक.

ए. आर. मेश्राम,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(396)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा. प्र. क्र. 01-बी/113(1)/14-15.

फॉर्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर.

आवेदक श्री शेषमल सोनी पिता श्री नवरतनमल सोनी एवं अन्य 6, निवासी महात्मा गांधी मार्ग, राजपुर अध्यक्ष, श्री शेषमल सोनी पिता श्री नवरतनमल सोनी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री मारूती मानस हनुमान मंदिर ट्रस्ट, राजपुर के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 24 जून, 2015 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(383)

जे. एस. बोरिया,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी बुधनी, जिला सीहोर

प्रारूप क्रमांक-4

[देखे नियम-5(1)]

यह कि श्री रिछपालसिंह मुख्य मैनेजिंग न्यासी माँ रेणुका आश्रम एवं गौ सेवा सदन (धमार्थ न्यास) ग्राम रेडगांव, तहसील रेहटी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 17 जुलाई, 2015 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति)

न्यास का नाम	..	माँ रेणुका आश्रम एवं गौ सेवा सदन (धमार्थ न्यास) ग्राम रेडगांव, तहसील रेहटी
न्यास की सम्पत्ति	..	भूमि खं. नं. 118/2 रकवा 0.283
		भूमि खं. नं. 120/5 रकवा 0.324
		भूमि खं. नं. 120/7 रकवा 0.202
		कुल रकवा 0.809 हेक्टेयर.

(384)

बृजेश सक्सेना,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र. क्र. 07 अ/6वर्ष 2013-14

मौजा-चकेरी शाहगढ़, तह. बण्डा.

बण्डा, दिनांक 13 जुलाई, 2015

हरीसींग पिता गनपतसींग लोधी,  
निवासी-चकेरी शाहगढ़, तहसील शाहगढ़, जिला सागर.

.....आवेदक

#### बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र.क/2158/रीडर-1/2015.—सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक हरीसींग पिता गनपतसींग लोधी, निवासी चकेरी शाहगढ़, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम चकेरी शाहगढ़ प.ह.न. 34, तहसील शाहगढ़ में स्थित मंदिर श्रीदेव देवमहावीर जी स्वामी, मुह. गनपतसींग पिता मुल्ली सींग लोधी साकिन देह के नाम ख. नं. 84, 97, 127, 178 कुल-04 मेडे रकवा क्रमशः 3.43, 0.12, 0.91, 0.89 हे. कुल रकवा 5.43 हे. जो श्रीदेव देवमहावीर जी स्वामी, मुह. गनपतसींग पिता मुल्ली सींग लोधी प्रबंधक कलेक्टर, सागर सा. देह भूमि स्वामी दर्ज है. आवेदक हरीसींग पिता गनपतसींग लोधी, निवासी-चकेरी, शाहगढ़ द्वारा पूर्व मुह. गनपतसींग लोधी पिता मुल्लीसींग लोधी सा. चकेरी, शाहगढ़ की दिनांक 20 अगस्त, 1994 को मृत्यु हो जाने से आवेदक के स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.



अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 29 जुलाई, 2015 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 08 जुलाई, 2015.

पेशी दिनांक 29 जुलाई, 2015.

(398)

बी. बी. पांडे,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम

क्र./20/34/नग्रनि/09.—रतलाम दिनांक 30 जुलाई, 2015 के एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सोनकच्छ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों—

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. कस्बा सैलाना       | 2. करिया              |
| 3. बोदिना             | 4. भैंसा डामर         |
| 5. खोकरा              | 6. सांसर              |
| 7. गोवर्धनपुरा        | 8. धामनोद             |
| 9. दिवेल              | 10. खेड़ी             |
| 11. असावरी            | 12. रीछी              |
| 13. मकोड़िया रूण्डी   | 14. आम्बाकुण्डी       |
| 15. कोटड़ा            | 16. मीठी माँ की खेड़ी |
| 17. धबाई खेड़ी        | 18. भीलों की खेड़ी    |
| 19. बागरियों की खेड़ी | 20. अडवानिया          |
| 21. हरसोरा.           |                       |

के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन कर सर्व-साधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये तथा प्राप्त आपत्ति/सुझावों की उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये हैं उन्हें सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देकर ऐसे उपांतरण कर लिये गये हैं जिन्हें वांछनीय समझा गया है.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-15 (3) के अधीन सैलाना निवेश क्षेत्र में ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से दिनांक 30 जुलाई, 2015 का अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम धारा-15 (4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है.

उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति दिनांक 30 जुलाई, 2015 तक नगर परिषद् सैलाना के सभा कक्ष में सर्व-साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे.

नीरज आनन्द लिखार,  
उप-संचालक.

(397)

#### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, ( सा. ) वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

वन परिक्षेत्र अधिकारी छिंदी द्वारा पत्र क्रमांक 805, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 से अवगत कराया गया है कि रातेड़ बीट का हेमर श्री मंगल सिंह धुर्वे वनरक्षक द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2014 को बीट गश्ती करते समय कहीं गिर गया. श्री मंगल सिंह धुर्वे, वनरक्षक द्वारा बीट हेमर ढूढने की कोशिश की गई मगर हेमर नहीं मिल पाया. तत्पश्चात उनके द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2014 को पुलिस थाना तामिया, तहसील तामिया में हेमर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई एवं परिक्षेत्र कार्यालय को दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को हेमर गुम होने बाबत सूचित किया गया. ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

श्री मंगल सिंह धुर्वे वनरक्षक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण बीट हेमर गुम हुआ है.

निष्कर्ष:- प्रकरण का समग्र रूपेण अध्ययन करने पर हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रख-रखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है.

अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि :-

आदेश/क्र./मा.चि./2015/243

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24-5-2015

वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित बीट हेमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री मंगल सिंह धुर्वे, वनरक्षक तत्कालीन बीट प्रभारी रातेड़ परिक्षेत्र छिंदी से उक्त हेमर का मूल्य रुपये 510/- (पाँच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर उक्त गुमशुदा बीट हेमर शासकीय अभिलेख से अभिलेखित किया जाता है तथा श्री मंगल सिंह धुर्वे वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने या वनविभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

बीट हेमर का चिन्ह:-



(395)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बटकाखापा द्वारा पत्र क्रमांक 322, दिनांक 10 जून, 2014 से अवगत कराया गया है कि, वर्ष 2014-15 में मार्किंग कार्य कक्ष क्रमांक पी. 976 आर. डी. एफ. कूप क्रमांक VII बेलपठार के लिये मार्किंग हेमर प्रदाय किया गया था। श्रीमती सुमरबती परतेती, वनरक्षक डेण्डू द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2014 को उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण उक्त हेमर जंगल के रास्ते में बस्ता से कहीं गिर गया, जिसे ढूँढने की कोशिश की गई, परन्तु हेमर नहीं मिल पाया। तत्पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2014 को पुलिस थाना बटकाखापा, तहसील हरई में हेमर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई एवं परिक्षेत्र कार्यालय को दिनांक 19 अप्रैल, 2014 को हेमर गुम होने बाबत सूचित किया गया। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे।

श्रीमति सुमरबती परतेती, वनरक्षक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण मार्किंग हेमर गुम हुआ है।

निष्कर्ष :- प्रकरण का समग्र रूपेण, अध्ययन करने पर हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रख-रखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि :-


आदेश/क्र./मा.चि./2015/259

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29-5-2015

वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित मार्किंग हेमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्रीमती सुमरबती परतेती, वनरक्षक बीट प्रभारी डेण्डू परिक्षेत्र पूर्व बटकाखापा से उक्त हेमर का मूल्य रुपये 510/- (पाँच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर उक्त गुमशुदा मार्किंग हेमर शासकीय अभिलेख से अभिलेखित किया जाता है तथा श्रीमती सुमरबती परतेती, वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने या वनविभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

मार्किंग हेमर का चिन्ह:-



(395-A)

आर. बी. शर्मा,  
वनमण्डलाधिकारी.

## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बड़वाह

दिनांक 1 जुलाई, 2015 से चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	बड़वाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	266	2008-09	25.000
	बड़वाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	247	2009-10	20.000
	बड़वाह	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	261	2008-09	81.365
	बड़वाह	चारागाह विकास योजना	247	2008-09	50.000
	बड़वाह	चारागाह विकास योजना	267	2008-09	50.000
	बड़वाह	चारागाह विकास योजना	244	2008-09	50.000
	बड़वाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	273	2008-09	50.000
	बड़वाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	267	2008-09	50.000
	बड़वाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	274	2008-09	50.000
	बड़वाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	262	2008-09	50.000
	बड़वाह	मिश्रित वृक्षारोपण	266	2008-09	18.000
	बड़वाह	उर्जा वन	247-I	2010-11	10.000
	बड़वाह	उर्जा वन	247-II	2010-11	10.000
	बड़वाह	उर्जा वन	264	2010-11	10.000
	बड़वाह	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	147	2010-11	20.000
	बड़वाह	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	264	2010-11	20.000
	बड़वाह	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	263	2015-16	5.000
2.	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	103	2008-09	0.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	127	2009-10	20.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	132	2009-10	20.000
	बलवाडा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250
	बलवाडा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	90	2008-09	119.470
	बलवाडा	चारागाह विकास योजना	84	2008-09	40.000
	बलवाडा	चारागाह विकास योजना	93	2008-09	40.000
	बलवाडा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	126	2008-09	50.000
	बलवाडा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	114	2008-09	50.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-I	2010-11	10.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-II	2010-11	10.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-III	2010-11	10.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	127	2010-11	20.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	132	2010-11	20.000

1	2	3	4	5	6
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	108	2012	40.000
	बलवाडा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	97	2010-11	20.000
	बलवाडा	एफ.डी.ए. योजनान्तर्गत	130	2010-11	50.000
	बलवाडा	मिश्रित वृक्षारोपण	113	2013-14	40.000
	बलवाडा	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	84	2015-16	10.000
	बलवाडा	एफडीए योजनान्तर्गत	84	2015-16	20.000
3.	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	184	2008-09	25.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	176	2009-10	25.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2012	50.000
	काटकूट	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	147	2008-09	117.436
	काटकूट	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	202	2008-09	50.000
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	149	2008-09	50.000
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	176	2012	50.000
	काटकूट	R.K.V.Y.	175	2010-11	10.000
	काटकूट	उर्जा वन	147-I	2010-11	10.000
	काटकूट	उर्जा वन	147-II	2010-11	10.000
	काटकूट	बांस वृक्षारोपण	185	2010-11	50.000
	काटकूट	मिश्रित वृक्षारोपण	149, 150	2010-11	30.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	176	2010-11	25.000
	काटकूट	एमएनआरईजीएस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण	185	2010-11	100.000
	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	194	2015-16	10.000
	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	177	2015-16	5.000
	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	153	2015-16	10.000
	काटकूट	एफ. डी. ए. योजनान्तर्गत	181	2015-16	50.000
4.	पाडल्या	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	59	2008-09	25.000
	पाडल्या	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	59	2008-09	138.600
	पाडल्या	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	70	2008-09	134.100
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	81	2008-09	50.000
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	82	2008-09	50.000
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	68	2012	50.000
	पाडल्या	R.K.V.Y.	72	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-I	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-II	2010-11	10.000

1	2	3	4	5	6
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-III	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-IV	2010-11	10.000
	पाडल्या	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	65	2010-11	20.000
	पाडल्या	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	81	2015-16	10.000
5.	मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	37	2008-09	15.000
	मण्डलेश्वर	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	43	2008-09	166.270
	मण्डलेश्वर	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	42	2008-09	110.370
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	752	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2008-09	50.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	40	2008-09	50.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2012	50.000
	मण्डलेश्वर	मिश्रित वृक्षारोपण	36	2008-09	18.000
	मण्डलेश्वर	R.K.V.Y.	36	2010-11	10.000
6.	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	3	2012	60.000
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	20	2008-09	120.800
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	10	2008-09	25.150
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	6	2008-09	111.150
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	32	2008-09	111.630
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	13	2008-09	50.000
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	19	2008-09	50.000
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	9	2008-09	50.000
	काकडदा	R.K.V.Y.	13	2010-11	10.000
	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	2	2010-11	50.000
	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	16	2012	50.000
	काकडदा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	14	2010-11	20.000
7.	सनावद	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	315	2008-09	92.890
	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	315	2008-09	50.000
	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	325	2012	50.000
	सनावद	R.K.V.Y.	288	2010-11	10.000
	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000

## दिनांक 01 जुलाई, 2015 से चराई से बंद कूप

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्य वृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	V	272	104.210
2.			सुरतीपुरा	V	277	120.820
3.			कडियाकुण्ड	V	283	119.600
4.			सुलगांव	V	258	105.300
5.			कुण्डी	V	232	156.260
6.			पलास्या	V	241	181.120
7.			माधवपुरा	V	253	173.160
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	V	130	180.560
9.			बडकीचौकी	V	75	91.570
10.			बलवाड़ा	V	105	80.550
11.			कालापाठा	V	110	194.250
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	V	168	184.170
13.			चैनपुरा	V	154	179.790
14.			ओखला	V	173	202.500
15.			कोदवार	V	190	161.780
16.			काटकूट	V	194	160.650
17.			बडेल	V	205	207.530
18.			मेंहदीखेडा	V	215	131.710
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	V	49	137.020
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	V	261	96.625
21.			मुरल्ला	V	142	167.170
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	V	103	65.250
23.			देवगढ	V	90	103.060
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	V	4	101.700
25.			गुठानिया	V	16	88.650
26.			काकड़दा	V	21	103.180
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	V	32	88.420
28.			बेकल्या	V	41	178.491
29.			गोवर्धनपुरा	V	45	132.300
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	V	56	95.850
31.			प्रेमपुरा	V	70	76.270

1	2	3	4	5	6	7
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	V	315	80.125
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	V	301	126.350
34.			नलवट	V	313	112.378
35.			सनावद	V	290	299.130
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VI	272	140.200
2.			सुरतीपुरा	VI	277	166.500
3.			कडियाकुण्ड	VI	283	211.810
4.			सुलगांव	VI	258	145.350
5.			कुण्डी	VI	277	63.030
6.			पलास्या	VI	244	128.250
7.			माधवपुरा	VI	251	144.680
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VI	137	177.300
9.			बडकीचौकी	VI	75	170.740
10.			बलवाडा	VI	98	123.150
11.			कालापाठा	VI	117, 118, 119	179.710
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VI	169	195.220
13.			चैनपुरा	VI	159	113.400
14.			ओखला	VI	146	166.250
15.			कोदवार	VI	191	95.700
16.			काटकूट	VI	194	157.810
17.			बडेल	VI	207	137.210
18.			मेंहदीखेडा	VI	213	137.250
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	VI	48	101.920
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VI	263	70.795
21.			मुरल्ला	VI	142	89.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VI	96	94.055
23.			देवगढ	VI	92	91.570
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VI	3	97.420
25.			गुठानिया	VI	16	91.820
26.			काकडदा	VI	21	97.420
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VI	31	81.388
28.			बेकल्या	VI	39	144.406
29.			गोवर्धनपुरा	VI	43	97.090
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VI	56	139.300

1	2	3	4	5	6	7
31.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	प्रेमपुरा	VI	71	78.080
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VI	324	113.040
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VI	302	146.215
34.			नलवट	VI	312	110.450
35.			सनावद	VI	291	255.215
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VII	271	228.820
2.			सुरतीपुरा	VII	277	113.560
3.			कडियाकुण्ड	VII	223	180.000
4.			सुलगांव	VII	256	142.200
5.			कुण्डी	VII	224	111.150
6.			पलास्या	VII	244	111.370
7.			माधवपुरा	VII	251	136.570
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VII	131	197.900
9.			बडकीचौकी	VII	87	199.470
10.			बलवाडा	VII	95	157.190
11.			कालापाठा	VII	125	140.800
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VII	166	153.790
13.			चैनपुरा	VII	160	130.720
14.			ओखला	VII	180	155.030
15.			कोदवार	VII	191	117.600
16.			काटकूट	VII	198	198.900
17.			बडेल	VII	207	157.950
18.			मेंहदीखेडा	VII	213	156.340
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	VII	48	168.054
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VII	267	53.535
21.			मुरल्ला	VII	176	224.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VII	96	70.875
23.			देवगढ	VII	89	79.830
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VII	5	157.950
25.			गुठानिया	VII	15	40.950
26.			काकड़दा	VII	18	128.580
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VII	30	96.010
28.			बेकल्या	VII	40	126.370
29.			गोवर्धनपुरा	VII	53	176.090



1	2	3	4	5	6	7
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VII	63	108.670
31.			प्रेमपुरा	VII	72	102.565
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VII	325	59.000
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VII	302	165.855
34.			नलवट	VII	312	115.383
35.			सनावद	VII	291	177.085
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VIII	268	115.850
2.			सुरतीपुरा	VIII	269	133.420
3.			कडियाकुण्ड	VIII	236	193.280
4.			सुलगांव	VIII	237	125.325
5.			कुण्डी	VIII	233	194.870
6.			पलास्या	VIII	254	190.300
7.			माधवपुरा	VIII	252	148.500
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VIII	132	216.460
9.			बडकीचौकी	VIII	62	152.850
10.			बलवाड़ा	VIII	102	157.110
11.			कालापाठा	VIII	124	114.280
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VIII	167	138.750
13.			चैनपुरा	VIII	161	77.400
14.			ओखला	VIII	174	79.870
15.			कोदवार	VIII	212	148.820
16.			काटकूट	VIII	196	146.340
17.			बडेल	VIII	200	154.340
18.			मेंहदीखेडा	VIII	214	133.870
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	VIII	49	94.340
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	IX	267	74.250
21.	काटकूट	पुनर्स्थापना	मुरल्ला	IX	178	147.820
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	IX	95	69.867
23.			देवगढ	IX	92	70.210
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	IX	3	115.660
25.			गुठानिया	IX	15	82.450
26.			काकड़दा	IX	18	130.770
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	IX	35	98.800
28.			बेकल्या	IX	34	161.900

1	2	3	4	5	6	7
29.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	गोवर्धनपुरा	IX	47	142.870
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	IX	63	126.450
31.			प्रेमपुरा	IX	72	105.970
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	IX	326	55.070
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IX	303	258.150
34.			नलवट	IX	317	115.520
35.			सनावद	IX	292	205.970
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	IX	268	124.220
2.			सुरतीपुरा	IX	269	167.400
3.			कडियाकुण्ड	IX	221	126.900
4.			सुलगांव	IX	234	140.895
5.			कुण्डी	IX	233	180.900
6.			पलास्या	IX	255	85.500
7.			माधवपुरा	IX	245	167.390
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	IX	129	80.440
9.			बडकीचौकी	IX	91	176.760
10.			बलवाडा	IX	102	142.200
11.			कालापाठा	IX	120	149.060
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	IX	165	147.150
13.			चैनपुरा	IX	161	129.380
14.			ओखला	IX	162,175	284.980
15.			कोदवार	IX	212	148.500
16.			काटकूट	IX	196	122.170
17.			बडेल	IX	197	209.250
18.			मेंहदीखेडा	IX	216	163.490
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	IX	52	206.550
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	X	262	52.200
21.	काटकूट	पुनर्स्थापना	मुरल्ला	X	179	96.750
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	X	114	153.100
23.			देवगढ	X	88	132.530
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	X	7	87.720
25.			गुठानिया	X	14	102.380
26.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	काकड़दा	X	19	87.750
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	X	29	104.310

1	2	3	4	5	6	7
28.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	बेकल्या	X	35	177.225
29.			गोवर्धनपुरा	X	50	103.830
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	X	63	103.740
31.			प्रेमपुरा	X	67	119.470
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	X	328	66.240
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	X	300	157.950
34.			नलवट	X	317	123.520
35.			सनावद	X	293	245.470
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	X	274	174.600
2.			सुरतीपुरा	X	278	121.950
3.			कडियाकुण्ड	X	221	124.870
4.			सुलगांव	X	239	145.120
5.			कुण्डी	X	225	161.770
6.			पलास्या	X	221	146.470
7.			माधवपुरा	X	247	144.450
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	X	138	115.980
9.			बडकीचौकी	X	77	176.760
10.			बलवाडा	X	106	154.120
11.			कालापाठा	X	122	59.680
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	X	150	135.270
13.			चैनपुरा	X	159	146.350
14.			ओखला	X	140	151.870
15.			कोदवार	X	209	122.400
16.			काटकूट	X	195	109.800
17.			बडेल	X	202	214.170
18.			मेंहदीखेडा	X	217	92.450
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	X	25	118.970
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	XI	274	136.730
21.	काटकूट	पुनर्स्थापना	मुरल्ला	XI	184	282.670
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	XI	116	161.450
23.			देवगढ	XI	85	139.050
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	XI	7	95.400
25.			गुठानिया	XI	13	119.150
26.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	काकड़दा	XI	27	121.280

1	2	3	4	5	6	7
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	XI	2	135.220
28.			बेकल्या	XI	35	134.273
29.			गोवर्धनपुरा	XI	58	125.120
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	XI	64	132.530
31.			प्रेमपुरा	XI	67	98.230
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	सनावद	XI	329	75.020
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	XI	304	211.720
34.			नलवट	XI	318	157.050
35.			सनावद	XI	294	150.175

**प्रतिबंधित 1-7-2015 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड की सूची**

परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3
मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
	2. तोपखान वाली	36.826
	3. गोस्यावाली	8.095
	4. लग्गीवाली	7.294
	5. बहेडावाली	8.712
	6. कामद वाली	3.237
	7. हिरया वाली	8.903
	8. काजी वाली	5.899
	9. भगवानसिंग वाली	11.735
	10. नवाब वाली	32.374
	11. म. वाली	7.284
	12. सांगया वाली	12.759
	13. भट्टयाण वाली	3.643
	14. खालबेडी वाली	15.378
	15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
	16. गवालबेडी वाली	15.378
	17. भूरा पाण्डु वाली	16.996
	18. कुण्डाल वाली	6.070
	19. रूखया वाली	2.428
	20. अजू वाली	4.047

1	2	3
मण्डलेश्वर	21. कग्गा वाली	9.712
	22. रमजू वाली	0.809
पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
	24. भादलीपुरा	205.000
	25. करोंदिया	441.107
काटकूट	26. लेण्डारी	432.672
	27. ओखला	100.000
	28. मंगलसिंग वाली	33.183
बलवाडा	29. चिचला	10.000
	30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

**वन ग्रामों में बाहर के पशुओं की चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण**

परिक्षेत्र का नाम	वन ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा
1	2	3	4
			(हेक्टर में)
बडवाह	कुण्डी	989	298.048
बडवाह	कोठावां	990	99.957
बडवाह	मोयदा (वीरान)	991	304.558
बलवाडा	नयापुरा	983	202.088
बलवाडा	बामनपुरी	984	30.214
बलवाडा	मधुपुरा (वीरान)	985	169.451
बलवाडा	कालापाठा	988	175.233
काटकूट	चेनपुरा	986	162.033
काटकूट	गवलनपाटी	987	41.349
<b>योग . .</b>			<b>1487.931</b>

**केम्पा मद से वैकल्पिक वृक्षारोपण**

परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कक्ष क्रमांक पुराना/नया	रकबा
1	2	3	4
			(हेक्टर में)
मण्डलेश्वर	केम्पा मद से वैक. वृक्षा.	45	29.010
काटकूट	अतरसुम्बा वैक. वृक्षा.	971, 972/186, 185	211.358
बलवाडा	पीपरीखेड़ा वैक. वृक्षा.	810, 811/104, 105	48.512
सनावद	मोखनगांव/अतरसुम्बा/पीपरीखेड़ा/अम्बा/ गोराडिया नहर किनारे वृक्षारोपण	598, 599, 600 अ, 600 स, 602 603 अ, ख. नं. 147, 150, 232, 238, 328 खं. नं. 47, 79, 84, 185, 201/1	19.574 कि. मी.

1	2	3	4
सनावद	सागडियाव नहर किनारे वृक्षारोपण	550	0.700 कि. मी.
बड़वाह	220 के. व्ही. मल्टी सर्किट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधा रोपण.	—	3.56 हे.
बड़वाह	220 के. व्ही. सनावद टेप पाईट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधा रोपण.	—	3.02 हे.
बड़वाह	बड़वाह-सिद्धवरकूट बायपास मार्ग के दोनों ओर किनारे पर वृक्षारोपण.	893/982	1.400 कि. मी.
मण्डलेश्वर	नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिक परियोजना	ख. नं. 60/1/1	5 हैक्टेयर

(385)

विक्रम सिंह परिहार,  
वनमण्डलाधिकारी.

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, ( सा. ) वनमण्डल , बुरहानपुर

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि बुरहानपुर वनमण्डल के निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

#### प्रपत्र—1

#### चराई वर्ष 2015-16 चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. )

परिक्षेत्र	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	185	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	186	50	
नेपानगर	2008-09	सलाई वृक्षारोपण	187, 186, 185	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	244	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	232	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	229	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	231	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	189	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	190	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	200	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	197	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	208	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	209	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	217	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	230	50	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	218	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	150	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	150	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	204	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	100	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	230	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	186	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	187	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	218	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	204	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	223	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	225	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	222	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	226	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	220	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	207	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	221	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	202	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	206	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	193	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	218	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	225	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	204	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	207	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	215	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	206	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग)	244	40	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग)	188	30	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग)	186	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग)	189	25	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	217	10	
नेपानगर	2010-11	बांस रोपण कार्य	192	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	194	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	119	50	



1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	40	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	30	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	50	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	215	20	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	229	10	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	193	10	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	212	10	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण कार्य	217	10	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण (गैंप प्लांटिंग)	189	25	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण (गैंप प्लांटिंग)	193	25	
नेपानगर	2011-12	बांस रोपण कार्य	192	40	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	50	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2012-13	बांस रोपण कार्य	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	100	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	216	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	25	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	25	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. उ. पाडल्या	85	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. उ. गंभीरपुरा	92	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. उ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. धुलकोट	96	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. उ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. इटारिया	89	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. उ. पाडल्या	85	50	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (A)	10	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (B)	10	
धुलकोट	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	92	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	89	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	94 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	94 (B)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	96	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (B)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	99	100	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	98	100	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (A)	10	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (B)	15	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (A)	10	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (B)	10	
धुलकोट	2011-12	बांस वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	92	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	82	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	99	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	87	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	83	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	69	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	71	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	72	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	74	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	77	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	67	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	62	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	66	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	94	40	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	67	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	87	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	52	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	61	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	70	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	85	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	86	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	75	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	88	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	94	40	
धुलकोट	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	94	30	
धुलकोट	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	97	100	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	91	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	86	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	66	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	67	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	87	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	84	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	52	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	96	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	61	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	74	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	77	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	69	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., उ. ढिमानिया	123	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., खातला	127	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	133	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	134	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., नसीमपुरा	142	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., उ. नसीमपुरा	118	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., उ. कोटाखेडा	130	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	134	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	135	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	133	100	
असीर	2010-11	रा. रा. गा. योजना, कोटाखेडा	130	100	
असीर	2010-11	रा. रा. गा. योजना, पू. नसीमपुरा	143	100	
असीर	2010-11	गेप प्लांटिंग, कोटाखेडा	130	10	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, असीर	P 152	50	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, निम्बोला	157	100	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, खातला	125	100	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	123	10	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (A)	10	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (B)	10	
असीर	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	123	40	
असीर	2010-11	बांस वृक्षारोपण	134	75	
असीर	2010-11	गेप प्लांटिंग	134	25	
असीर	2010-11	सागौन रूटसूट रोपण ए. एन. आर. ई. जी. एस.	155	25	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (A)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (B)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	

1	2	3	4	5	6
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	148	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	144	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	160	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (A)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (B)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	162	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	26	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	27	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	25	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	150	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	169 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (B)	10	
असीर	2011-12	बांस वृक्षारोपण	133	40	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	167	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	127	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	117	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	120	50	

1	2	3	4	5	6
असीर	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	141	50	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	135	40	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	136	40	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	155	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	142	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	155	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	161	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	119	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	122	50	

1	2	3	4	5	6
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	26	10	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	27	50	
असीर	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	136	50	
असीर	2014-15	चारागाह विकास योजना	136	50	
बुरहानपुर	2010-11	भौलाना	16	50	-
बुरहानपुर	2009-10	बलडी	12	50	-
बुरहानपुर	2009-10	ठाठर	18	50	-
बुरहानपुर	2009-10	बिरोदा	10	50	-
बुरहानपुर	2009-10	भौलाना	11	50	-
बुरहानपुर	2009-10	उताम्बी	33	50	-
बुरहानपुर	2009-10	सोलाबर्डी	44	50	-
बुरहानपुर	2009-10	भौलाना	17	50	
बुरहानपुर	2010-11	बसाली	49	50	
बुरहानपुर	2010-11	उताम्बी	34	50	
बुरहानपुर	2010-11	सोलाबर्डी	41	50	
बुरहानपुर	2010-11	सोलाबर्डी	42	50	
बुरहानपुर	2010-11	गढताल	37	50	
बुरहानपुर	2010-11	बसाली	31	50	
बुरहानपुर	2010-11	दक्षिण ठाठर	-	50	
बुरहानपुर	2010-11	उत्तर ठाठर	168	50	
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर	18	50	
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर	17	50	
बुरहानपुर	2011-12	सोलाबर्डी गढताल	16	50	
बुरहानपुर	2011-12	गढताल	40	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	46	100	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	44	25	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	164	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	169	50	
बुरहानपुर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र (आर. डी. एफ.)	169	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	169 A	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	169 B	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	184	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	180	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	164	50	



1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	
बुरहानपुर	2012-13	उ. गढताल	46	50	
बुरहानपुर	2012-13	पु. गढताल	36	50	
बुरहानपुर	2012-13	उ. बलडी	12	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	16	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	17	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	18	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	20	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	16	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	17	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	18	50	
बुरहानपुर	2013-14	प. सोलाबडी	44	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. सोलाबडी	45	50	
बुरहानपुर	2013-14	भौलाना	7	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	12	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. गढताल	36	50	
बुरहानपुर	2013-14	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	183	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	164	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबडी	40	50	
बुरहानपुर	2014-15	प. सोलाबडी	44	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबडी	38	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2014-15	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	180	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2014-15	लालबाग	11	50	
बुरहानपुर	2014-15	बिरोदा	16	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	31	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. बलडी	22	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. बसाली	49	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2014-15	प. बसाली	51	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	169	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	9	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबडी	41	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	168	50	
बुरहानपुर	2014-15	भौलाना	P-6	40	
बुरहानपुर	2014-15	उतावली	15	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	35	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	174	25	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	184	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. सोलाबडी (आर. डी. एफ.)	45	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बसाली (आर. डी. एफ.)	48	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	35	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	182	100	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	169	100	
बुरहानपुर	2015-16	पुर्व गढताल (आर. डी. एफ.)	37	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बासली (आर. डी. एफ.)	49	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बलडी (आर. डी. एफ.)	22	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. उताम्बी (आर. डी. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2015-16	प. बसाली (आर. डी. एफ.)	51	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. बसाली (आर. डी. एफ.)	34	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (आर. डी. एफ.)	9	50	
बुरहानपुर	2015-16	सोलाबडी (आर. डी. एफ.)	42	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	174	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	179	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (वृक्षारोपण)	178	50	
बुरहानपुर	2015-16	उताम्बी (वृक्षारोपण)	29	50	
बुरहानपुर	2015-16	उतावली (वृक्षारोपण)	15	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (वृक्षारोपण)	9	50	
शाहपुर	2009-10	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	2009-10	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	
शाहपुर	2009-10	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	
शाहपुर	2009-10	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	465	50	
शाहपुर	2009-10	पांढरी (अतिक्रमण)	410	50	
शाहपुर	2009-10	चौण्डी (अतिक्रमण)	411	50	
शाहपुर	2009-10	चौण्डी (अतिक्रमण)	442	50	
शाहपुर	2009-10	पांढरी (आर. डी. एफ.)	441	50	
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	426	50	
शाहपुर	2010-11	पाण्ढरी (आर. डी. एफ.)	416	50	
शाहपुर	2010-11	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	419	50	
शाहपुर	2010-11	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	
शाहपुर	2010-11	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	456	50	
शाहपुर	2010-11	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	464	50	
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	441	50	
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	442	50	
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	447	50	
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	448	50	
शाहपुर	2010-11	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	427	50	
शाहपुर	2011-12	चौण्डी (अतिक्रमण)	446	50	
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	456	50	
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	474	50	
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	452	50	
शाहपुर	2011-12	मोरझरीरा (आर. डी. एफ.)	459	50	
शाहपुर	2011-12	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	419	50	
शाहपुर	2011-12	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	
शाहपुर	2011-12	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	
शाहपुर	2011-12	पांढरी (अतिक्रमण)	412	50	
शाहपुर	2011-12	गढ़ी (बांस वृ. रो.)	427	50	
शाहपुर	2012-13	राजोरा (आर. डी. एफ.)	445	50	
शाहपुर	2012-13	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	
शाहपुर	2012-13	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	405	50	
शाहपुर	2012-13	पांढरी (अतिक्रमण)	412	50	
शाहपुर	2012-13	इच्छापुरदेवी (आर. डी. एफ.)	470	50	
शाहपुर	2013-14	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	405	50	
शाहपुर	2013-14	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	462	50	
शाहपुर	2013-14	कालामाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	
शाहपुर	2013-14	राजोरा (आर. डी. एफ.)	446	50	

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	2013-14	चौण्डी (अतिक्रमण)	428	50	
शाहपुर	2014-15	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	48	50	
शाहपुर	2014-15	बडोदा (आर. डी. एफ.)	419	50	
शाहपुर	2014-15	चौण्डी (अतिक्रमण)	414	50	
शाहपुर	2014-15	चौण्डी (अतिक्रमण)	428	50	
शाहपुर	2014-15	मोहद (आर. डी. एफ.)	450	50	
शाहपुर	2014-15	मोहद (आर. डी. एफ.)	439	50	
शाहपुर	2014-15	मोहद (आर. डी. एफ.)	450	50	
शाहपुर	2014-15	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	463	50	
शाहपुर	2014-15	उ. बंभाडा (आर. डी. एफ.)	474	50	
शाहपुर	2014-15	राजोरा (आर. डी. एफ.)	447	50	
शाहपुर	2014-15	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	426	50	
शाहपुर	2014-15	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	427	50	
शाहपुर	2014-15	जामठी (अतिक्रमण)	442	50	
शाहपुर	2014-15	मोहद (अतिक्रमण)	448	50	
शाहपुर	2014-15	मोहद (मिश्रित वृक्षारोपण)	438	50	
बोदरली	2008-09	मिश्रित वृक्षारोपण	384	50	
बोदरली	2010-11	गेप प्लांटिंग	380	50	
बोदरली	2011-12	बांस वृक्षारोपण	371	50	
बोदरली	2012-13	उर्जावन एवं चरागाह विकास	369	50	
बोदरली	2012-13	उर्जावन एवं चरागाह विकास	501	50	
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	371	50	
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	369	50	
बोदरली	2013-14	बांस वृक्षारोपण	369	40	
बोदरली	2013-14	बांस वृक्षारोपण	378	80	
बोदरली	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	471	12	
नावरा	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	
नावरा	2007-08	ऊर्जावन	295	20	
नावरा	2007-08	ऊर्जावन	296	20	
नावरा	2007-08	आर. डी. एफ.	247	50	
नावरा	2007-08	चरागाह विकास	266	20	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ.	266	50	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	150	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	266	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	236	50	

1	2	3	4	5	6
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. अतिक्रमण (बांस वृक्षारोपण)	263	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	297	50	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	268	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2011-12	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	294	20	
नावरा	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	297	30	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (I)	10	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (II)	10	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	285	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	295	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	294	50	
नावरा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	247	40	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	298	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2012-13	गेप प्लांटिंग	266	10	
नावरा	2012-13	बांस वृक्षारोपण	295	50	
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	251	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	266	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	247	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	297	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	298	20	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 (I)	50	

1	2	3	4	5	6
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 (II)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 (I)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 (II)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	247	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
खकनार	2010-11	देवरी	337	100	
खकनार	2010-11	डवाली	326	100	
खकनार	2010-11	सामरिया	334	50	
खकनार	2010-11	सोनूद	319	50	
खकनार	2010-11	पाचोरी	362	100	
खकनार	2010-11	भौराघाट	312	50	
खकनार	2010-11	भौराघाट	313	50	
खकनार	2010-11	सोनूद	320	50	
खकनार	2010-11	बोरखेड़ा	310	50	
खकनार	2010-11	मांजरोद	308	150	
खकनार	2010-11	भौराघाट	312	100	
खकनार	2010-11	भौराघाट	313	100	
खकनार	2010-11	सोनूद	319	150	
खकनार	2010-11	धाबा	317	50	
खकनार	2011-12	नानानगरी	355	50	
खकनार	2011-12	पाचोरी	362	50	
खकनार	2011-12	पाचोरी	363	50	
खकनार	2011-12	मांजरोद	307	50	
खकनार	2011-12	भौराघाट	313	100	
खकनार	2011-12	नावथा	327	20	
खकनार	2011-12	डवाली	326	100	
खकनार	2011-12	डवाली	335	100	
खकनार	2011-12	देवरी	337	100	
खकनार	2011-12	बोरखेड़ा	310	10	
खकनार	2011-12	बोरखेड़ा	310	10	
खकनार	2011-12	सामरिया	332	10	
खकनार	2011-12	करदली	347	10	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	10	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	10	

1	2	3	4	5	6
खकनार	2011-12	सोनूद	321	60	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	50	
खकनार	2011-12	भौराघाट	312	25	
खकनार	2011-12	भौराघाट	313	50	
खकनार	2011-12	रायतलाई	300	35	
खकनार	2011-12	नावथा	324	80	
खकनार	2012-13	भौराघाट	312	100	
खकनार	2012-13	पाचोरी	362	100	
खकनार	2012-13	पाचोरी	363	100	
खकनार	2012-13	नानानगरी	355	50	
खकनार	2012-13	भौराघाट	313	50	
खकनार	2012-13	सामरिया	330	50	
खकनार	2012-13	डवाली	326	50	
खकनार	2012-13	सानूद	319	50	
खकनार	2012-13	मोहनगढ़	356	50	
खकनार	2012-13	नावथा	327	50	
खकनार	2012-13	देवरी	327	50	
खकनार	2013-14	गऊमाल	362	100	
खकनार	2013-14	गऊमाल	363	100	
खकनार	2013-14	अम्बाझोली	364	100	
खकनार	2013-14	पलासपानी	355	50	
खकनार	2013-14	पलासपानी	356	50	
खकनार	2013-14	नावथा	327	50	
खकनार	2013-14	भौराघाट	312	50	
खकनार	2014-15	सौनूद	319	50	
खकनार	2014-15	डवाली	326	100	
खकनार	2014-15	नावथा	327	50	
खकनार	2014-15	पलासपानी	356	50	
खकनार	2014-15	सामरिया	334	100	
खकनार	2014-15	अम्बाझोली	364	100	
खकनार	2014-15	डोईफोडिया	330	50	

## प्रपत्र-2

चराई वर्ष 2015-16 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. ) बुरहानपुर

परिक्षेत्र	उपवन परिक्षेत्र	बीट	कम्पार्टमेंट नं.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
शाहपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
बोदरली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नावरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
खकनार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

## प्रपत्र-3

## चराई वर्ष 2015-16 में बंद कूपों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. ) बुरहानपुर

परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम/ कक्ष क्र.	कूप क्र.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	हसनपुरा	213	V, VI, VI	274.00	-
नेपानगर	हसनपुरा	210	II	157.89	-
नेपानगर	हसनपुरा	203	III, IV	315.59	-
नेपानगर	अहमदनगर	243	II, III	425.67	-
नेपानगर	अहमदनगर	242	VI	214.76	-
नेपानगर	मांडवा	213	VI	77.85	-
नेपानगर	हसनपुरा	212	VII	63.10	-
नेपानगर	हसनपुरा	212	VIII	104.18	-
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
शाहपुर	जम्बुपानी	420, 423	I, II, III, V, V, VI	554.63	-
शाहपुर	भावसा	436	VI	138.21	-
शाहपुर	जम्बुपानी	423	VIII	102.82	-
बोदरली	दांत पहाडी	365	I, II, III, IV, V, VI, VII	779.89	-
बोदरली	धावटी	378	VI, V, VI, VII	636.01	-
बोदरली	तारापाटी	394, 395, 387	I, III, V, VI	632.59	-
बोदरली	चौण्डी	430	VI, VII	358.36	-
बोदरली	जसौंदी	402, 286	III, IV, V, VI, VII	492.26	-
बोदरली	आमगांव	368, 369	I, II, III, IV, V, VII	1037.88	-
नावरा	बाकड़ी	260	III	238.95	-
नावरा	छिरवा	276	III	80.52	-
नावरा	गोंडवाडी	282	III	70.87	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	III	78.10	-



1	2	3	4	5	6
नावरा	मझगांव	288	III	93.50	-
नावरा	डवाली	291	III	67.50	-
नावरा	हैदरपुर	273	III	94.42	-
नावरा	बाकड़ी	262	III	150.90	-
नावरा	बाकड़ी	260	IV	203.62	-
नावरा	छिरवा	276	IV	100.57	-
नावरा	गोंडवाडी	282	IV	68.4	-
नावरा	गोंडवाडी	283	IV	80.3	-
नावरा	मझगांव	288	IV	84.15	-
नावरा	डवाली	291	IV	71.3	-
नावरा	टुलियामाल	237	IV	117.4	-
नावरा	हैदरपुर	273	IV	116.4	-
नावरा	बाकड़ी	262	IV	120.3	-
नावरा	बाकड़ी	260	V	96.45	-
नावरा	छिरवा	276	V	93.01	-
नावरा	गोंडवाडी	282	V	85.5	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	V	107.07	-
नावरा	मझगांव	288	V	133.5	-
नावरा	डवाली	291	V	76.75	-
नावरा	टुलियामाल	237	V	126.45	-
नावरा	डेहलिया	254	V	184.78	-
नावरा	साईंखेड़ा खुर्द	267	V	76.92	-
नावरा	हैदरपुर	270	VI	131.11	-
नावरा	हीरापुर	274	VI	219.82	-
नावरा	छिरवा	276	VI	104.85	-
नावरा	गोंडवाडी	282	VI	161.22	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	VI	111.25	-
नावरा	घमनपुरा	286	VI	79.2	-
नावरा	डवाली	291	VI	84.15	-
नावरा	बाकड़ी	254	VI	200.92	-
नावरा	हिवरा	274	VII	111.82	-
नावरा	बाकड़ी	276	VII	90.42	-
नावरा	छिरवा	281	VII	95.69	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VII	82.55	-
नावरा	समझगांव	286	VII	112.12	-
नावरा	साजनी	289	VII	102.05	-

1	2	3	4	5	6
नावरा	अहमदनगर	256	VII	151.55	-
नावरा	डेहलिया	249	VII	165.25	-
नावरा	हैदरपुर	270	VII	95.17	-
नावरा	हिवरा	274	VIII	90.45	-
नावरा	बाकड़ी	276	VIII	72.82	-
नावरा	छिरवा	281	VIII	69.3	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VIII	72.42	-
नावरा	मंजगांव	286	VIII	97.92	-
नावरा	साजनी	289	VIII	99.62	-
नावरा	अहमदनगर	256	VIII	180.75	-
नावरा	डेहरिया	249	VIII	148.27	-
नावरा	हैदरपुर	270	VIII	99.67	-
नावरा	हिवरा	261	IX	173.02	-
नावरा	बाकड़ी	280	IX	64.57	-
नावरा	छिरवा	281	IX	80.1	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	IX	56.22	-
नावरा	मंजगांव	286	IX	122.25	-
नावरा	साजनी	289	IX	101.4	-
नावरा	अहमदनगर	238	IX	98.72	-
नावरा	डेहरिया	265	IX	209.89	-
नावरा	हैदरपुर	267	IX	134.75	-
खकनार	भौराघाट	310	IV	124.80	-
खकनार	भौराघाट	314	V	118.49	-
खकनार	सामरदेव	329	IV, V	233.68	-
खकनार	सामरिया	338	IV, V, VI, VII	939.79	-
खकनार	मोहनगढ़	350	IV	233.45	-
खकनार	पाचोरी	349	V, VI, VII, VIII	262.69	-
खकनार	पांगरी	361	IV, V, VI, VII, VIII	558.11	-
खकनार	पांगरी	357	IV	132.47	-
खकनार	सामरदेव	358	V, VI, VII, VIII	322.98	-
खकनार	भौराघाट	317	VI, VII, VIII	428.66	-
खकनार	भौराघाट	315	VI	76.42	-
खकनार	धाबा	318	VII, VIII	160.47	-
खकनार	सामरिया	332	VIII	145.35	-

डी. एस. कनेश,  
वनमण्डलाधिकारी.

(386)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2015-श्रावण 2, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर, बैतूल, श्योपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर (ग्वालियर), लवकुशनगर, छतरपुर, राजनगर, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, बैतूल, आठनेर (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गौरीहार, नौगांव, बिजावर (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— ..

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.—जिला झाबुआ, बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व कटनी में तुअर, मसूर, चना व पन्ना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, बैतूल व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	0.1				
2. पोरसा	0.2				
3. मुरैना	0.4				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	0.6				
6. कैलारस	0.2				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	82.0				
2. कराहल	54.0				
3. विजयपुर	76.0				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	1.4				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>*जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	10.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	25.0		(2) ..		
3. नौगांव	22.2				
4. छतरपुर	11.0				
5. राजनगर	11.9				
6. बिजावर	19.0				
7. बड़ामलहरा	15.2				
8. बक्स्वाहा	17.1				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, अलसी, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..		
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ, चना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	...				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	0.2		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	16.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	1.4				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	4.2				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, तुअर, मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
3. बजाग	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. धान, तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, गुना, देवास, बड़वानी, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(393)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.